

شَدَى الْمُنَاجَاةِ الْمُبَارَكَةِ

٢٩٩

١٣١

١٠١٠

١٤٤٠هـ

سَأَلْتُكَ رَبِّي وَأَنْتَ الْقَرِيبُ

مُنَاجَاةٌ صَنَّفَهَا

الدَّاعِي الْأَجَلُّ الْفَاطِمِيُّ

سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا أَبُو خَزِيمَةَ طَاهِرُ نَخْرُ الدِّينِ طَع

سنة ١٤٤٠هـ

يَنْبُوعُ الْمُنَاجَاةِ الْغَرَّاءِ

١٢٣٣

١٣١

١٣٨

١٤٤٠ هـ

شَدَى الْمُنَاجَاةِ الْمُبَارَكَةِ

٢٩٩

١٣١

١٠١٠

١٤٤٠ هـ

سَعَادَةُ فَيْضِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

٣٣٥

٧٥

٨٩٠

١٤٠

١٤٤٠ هـ

तारीखी नाम की माअना:

तारीखी नाम नी माअना :

شذئ المنأاة المأارة

मुबारक मुनाजात की खुशबू

मुबारक मुनाजात नी खुशबू

ينبوع المنأاة الغراء

बेमिसाल मुनाजात का झरना

बेमिसाल मुनाजात नुं झरनुं

سعادة فيض ليلة القدر

लैलतुल क़दर के फैज़ की सआदत

लैलतुल क़दर ना झैज़ नी सआदत

وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْتِي وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عِندَ ذُرِّيٰرِهِ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

المناجاة الشريفة

سَأَلْتُكَ رَبِّي وَأَنْتَ الْقَرِيبُ

صنّفها

الدّاعي الأجلُّ الفاطميّ سيّدنا أبو خزيمة طاهرٌ نحر الدّين طع

في ليلة القدر

سنة ١٤٤٠ هـ

५४ वे दाई अल मुतलक हिज़ होलीनेस सैयदना ताहेर फखरुद्दीन त.उ.श. के कार्यालय द्वारा प्रकाशित
५४ मां दाईल मुतलक हीज़ होलीनेस सैयदना ताहेर फखरुद्दीन त.उ.श. ना कार्यालय द्वारा प्रकाशित

**Saifee Mahal,
A.G. Bell Road, Malabar Hill, Mumbai 400 006**

**Darus Sakina
Pokhran Rd. No. 1, Upvan, Thane (W) 400 606**

रमज़ान अल मोअज़्ज़म १४४० हि

रमज़ान अल मोअज़्ज़म १४४० हि

MAY 2019

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

۱ سَأَلْتُكَ رَبِّي وَأَنْتَ الْقَرِيبُ
دَعَوْتُكَ رَبِّي وَأَنْتَ الْمُجِيبُ

ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तुझसे सुआल तलब करता हूँ, तू करीब है,
ऐ मेरे रब मैं तेरे नज़दीक दोआ मांगता हूँ, तू उम्मीद बख्शने वाला है.
कुरान मजीद आयत - "गर मेरे बन्दे मेरे बारे में पूछे, तो (कहो कि) मैं करीब हूँ, दोआ
मांगने वालो को मैं जवाब देता हूँ" (बकरह:१८६)

એ પરવરદિગાર, એ મારા રબ, મેં તને સવાલ કરું છું, તું કરીબ છે.
મારા રબ, મેં તારા નજદીક દોઆ કરું છું, તું જવાબ દેનાર છે.
કુરાને મજીદ ની આયત શરીફા - (જો મારા બંદાઓ તમને મારા બારા માં સવાલ કરે,
તો [કહો કે] મેં કરીબ છું. દોઆ કરનાર ની દોઆ ને જવાબ દઉં છું - સુરતુલ બકરા:
૧૮૬)

۲ لَدَيْكَ رَجَائِي وَإِنَّكَ حَسْبِي
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْحَبِيبُ

ऐ परवरदिगार, तेरे पास उम्मीद लेकर आया हूँ, तू मुझे किफायत करने वाला है, तू मेरा
निगेहबान है, तू मेरा हबीब है,

એ પરવરદિગાર, મારી ઉમીદ લઈને તારા નજદીક આયો છું,
તું મને કિફાયત કરી આપનાર છે, તું મારો નિગેહબાન છે, તું મારો હબીબ છે.

۳ بِبَابِكَ مَوْلَايَ عَبْدٌ أَسِيرٌ

أَحَاطَتْ بِهِ يَا إِلَهِي الْخُطُوبُ

ऐ मेरे मौला तेरे दर पर एक बन्दा आया हूँ, कैद में हूँ,
ऐ मेरे परवरदिगार, चारो ओर मुश्किलों से घिरा हुआ हूँ,

એ મારા મૌલા તારા દર પર એક બંદો આયો છું, કેદ માં છું.
એ પરવરદિગાર, મારા ચો તરફ મેહનતો સી ઘેરાયેલો છે.

۴ بِبَابِكَ مَوْلَايَ عَبْدٌ لَهَيْفٌ
(ن) تَغَشَّتُهُ تَغَمَّتُهُ مِنْ ذَا الزَّمَانِ الْكُرُوبُ

ऐ मेरे मौला तेरे दर पर ये बन्दा मुसीबत ज़दा आया हूँ,
मुझ पर ज़मान की मेहनतें टूट पड़ी है,

એ મારા મૌલા તારા દર પર બંદો મુસીબત ઝદા આયો છું.
મારા ઉપર આ ઝમાના ની મેહનતો તૂટી પડી છે.

۵ بِبَابِكَ مَوْلَايَ عَبْدٌ فَقِيرٌ
حَقِيرٌ ذَلِيلٌ طَرِيدٌ غَرِيبٌ

ऐ मेरे मौला तेरे दर पर एक बन्दा फ़कीर आया हूँ,
हकीर, ज़लील, धुतकारा हुआ, अपने वतन से दूर,

એ મારા મૌલા તારા દર પર એક બંદો ફકીર આવ્યો છું.
હકીર છું, ઝલીલ છું, ધુત્કારો હુવો છું, મારા વતન સી દૂર છું.

بِبَابِكَ مَوْلَايَ عَبْدٌ حَزِينٌ
ضَيْلٌ مَهِينٌ ضَعِيفٌ كَيْبٌ

ऐ मेरे मौला तेरे दर पर एक बन्दा गमगीन आया हूँ,
मेरा बदन सूख कर कमज़ोर है, नाचीज़, ज़ईफ, मायूस हूँ,

એ મારા મૌલા તારા દર પર એક બંદો ગમગીન આયો છું.
જિસમ સુકાઈ ને કમજોર છે, નાચીઝ છે, ઝઈફ છે, માયુસ છે.

وَعَدَّتْ بِمَغْفِرَةٍ لِلذُّنُوبِ
لِمَنْ بِالْخُلُوصِ إِلَيْكَ يُوُوبٌ

तेरे दर पर इखलास से तौबा करनेवालों के गुनाहों को
बख्श देने का तूने वादा किया है,

જે તારા નઝદીક ઇખલાસ સી માફી તલબ કરશે,
એને તું એ વાદો કીધો છે કે તું ગુનાહો બખ્શી દેશે.

أَتَيْتَكَ مُسْتَغْفِرًا لَا لِعَيْبٍ
فَلِي كَالرَّمَالِ إِلَهِي عُيُوبٌ

तेरे पास ऐ अल्लाह, इस्तिगफार करता हुआ आया हूँ,
कोई एक गुनाह पर नहीं, बल्के मेरी खता रेत जैसी अनगिनत है,

મેં તારા નઝદીક ઇસ્તિગફાર કરતો આયો છું, કોઈ એક ગુનાહ વાસ્તે નહિ,
બલ્કે મારા ગુનાહો રેતી ની મિસલ અનગીનત છે.

۹ إِلَهِي إِلَهِي فَخُذْ بِيَدِي
فَانِّي مَن أَعْرَقْتَهُ الذُّنُوبُ

ऐ मेरे खुदा, ऐ परवरदिगार मेरा हाथ थाम ले,
गुनाहों के बोझ ने मुझे डूबा दिया है,

એ મારા ખુદા, એ પરવરદિગાર, તું મારો હાથ થામી લે,
ગુનાહો એ મને ડૂબાવી દીધા છે.

۱۰ وَمِن ذِي الْهَيْوَلِي إِلَهِي أَنْقِذْنِي
بِأُطْفِ فَتَحَوِ الْجِنَانِ أَوْوَبُ

ऐ परवरदिगार, तेरे लुत्फोकरम से मुझे इस हयूला के
सागर से बचा ले, जन्नत की तरफ लौटा दे,

એ પરવરદિગાર, તારા લુત્ફ સી મને આ હયૂલા ના દરિયા સી બચાવી લે,
જન્નત ની તરફ વાલી દે.

۱۱ وَيَا رَبِّي أَعْفِرْ جَمِيعَ ذُنُوبِي
فَانِّي عَبْدٌ إِلَيْكَ مُنِيبٌ

ऐ मेरे रब, मेरे तमाम गुनाह बर्ख्श दे,
मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे पास तौबा करते हुए आया हूँ,

એ મારા રબ, મારા સગલા ગુનાહો બખ્શી દે,
મેં તારો બંદો છું, તારા નઝદીક તૌબા કરી ને આયો છું.

۱۲ إِلَهِي أَرْحَمَنِي إِلَهِي أَغْنِنِي
فَإِنِّي أَمْرُؤٌ قَدْ آتَاهُ الْمَشِيبُ

ऐ परवरदिगार मुझ पर रेहमत कर, मुझे मदद कर,
मैं वह मर्द हूँ जिसे बुढापा आ चुका है,

એ પરવરદિગાર મને રેહમત કર, એ પરવરદિગાર મને વાર આપ,
મેં વો મર્દ છું જે ને બુઢાપો આવી ગયો છે.

۱۳ أَيَا رَازِقِي فَامِحُ فَقْرِي وَاثْبِتْ
رَفَاهِي وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِي نَصِيبٌ

ऐ परवरदिगार, ऐ राज़िक, मेरा फ़कर मिटा दे, मेरे लिए नेअमत और खुशहाली लिख दे,
चाहे ये मेरे नसीब में न हो,

એ પરવરદિગાર, એ રોઝી ના આપનાર, મારું ફકર મિટાવી દે,
મારા વાસ્તે નેમત અને ખુશહાલી લખી દે, ગરચે એ મારા નસીબ માં ન ઢોઈ.

۱۴ لِأَنَّكَ تَمْحُو تَمْحُو وَتُثْبِتُ مَا
تُرِيدُ وَمَنْ ذَا تُرِيدُ تُثِيبُ

तू जो चाहे मिटाता है, तू जो चाहे नसीब में लिख देता है,
जिसे चाहे उसे सवाब देता है, जज़ा देता है

તું જે યાહે તે મિટાવી છે, જે યાહે તે નસીબ માં લખી દે છે,
જેને યાહે એને સવાબ આપે છે, જઝા આપે છે.

۱۵ فَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ وَمَا
سِوَاكَ لِعَبْدٍ دَعَاكَ حَسِبُ

उम्मुल किताब तेरे नज़दीक है, दोआ माँगनेवाले बन्दों के पास तेरे सिवा कोई आसरा नहीं,
कुरआन मजीद की आयत शरीफ़ा - 'खुदा जो चाहे मिटा देता है, चाहे वह नसीब में लिख देता है' -
(सूरतुल राद:३९)

उम्मुल किताब तारा नजदीक છે, દોઆ કરનાર બંદા નો તારા સિવાય કોઈ આસરો નથી.
કુરાને મજીદ ની આયત શરીફા છે, "ખુદા યાહે તે મિટાવે જે યાહે તે નસીબ માં લખી દે છે. ઉમ્મુલ
કિતાબ ખુદા નાનજદીક છે" - સુરત અલ-રઅદ: ૩૯)

۱۶ تَوَسَّلْتُ بِالْخَمْسَةِ الطُّهْرِ مَنْ
بِذِكْرِهِمْ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

પંજેતન પાક કા વસીલા લેતા હૂં, જિનકી જિક્ર સે દિલ કો સુકૂન હૈ,
કુરઆન મજીદ કી આયત શરીફા - "કયા ખુદા કી જિક્ર સે દિલો કો સુકૂન નહીં" સૂરતુલ રઅદ:૨૮)

પંજેતન પાક નો મેં વસીલો લઉ છું,એની ઝિક્ર સી દિલો ને સુકૂન છે.
કુરાને મજીદ ની આયત શરીફા છે "શું ખુદા ની ઝિક્ર સી દિલો ને સુકૂન નથી?" - સુરત અલ-રઅદ: ૨૮)

۱۷ بَلِيَّةٍ قَدْرِ بِفَاطِمَةَ
لَهَا مَكْرَمَاتٌ وَشَانٌ غَرِيبٌ

લૈલતુલ કદર, મૌલાતુના ફાતેમા કા વસીલા લેતા હૂં, આપ કી કરામત ઓર શાનાત અજીમ હૈ,

લૈલતુલ કદર, મૌલાતોના ફાતેમા નો વસીલો લઉ છું,
આપ ની કરામાત અને શાનાત અજીબા છે.

۱۸ بِأَبْنَاءِهَا وَبَطِيْبٍ وَعَصْرِيْ
وَلَا يَتِيْمُهُمْ فَوْزٌ نَّفْسِيْ وَطِيْبٌ

मौलातुना फातेमा के शेहज़ादों का वसीला, मेरे ज़मान के इमाम तैयब का वसीला, उनकी मोहब्बत मेरे जान की जीत है, मेरे जान की खुशबू है,

मौलातोना फ़ातेमा ना शेहज़ादाओ नो वसीलो वउ छुं, अने मारा ज़मान ना धमाम तैयब नो वसीलो वउ छुं, अे सगवा नी वलायत सी मारा जान नी ज़त छे, मारा जान वास्ते अे प्युशबू छे.

۱۹ وَحُبِّهِمْ حَسَنَاتٍ وَذُخْرٍ
وَبُغْضِهِمْ سَيِّئَاتٍ وَحُوبٌ

इमामो की मोहब्बत हसनात है, ज़खीरा है, आप की दुश्मनी सैयेअत है, गुनाह है,
अमीरुल मुमिनीन स.अ. फरमाते है "हसनत हमारी मोहब्बत है, सैयेअत हमारी दुश्मनी है"

अे धमामो नी मोहब्बत हसनात छे, तोशो छे,
अेनी दुश्मनी सैयेआत छे, मोटा गुनाह छे.
अमीरुल मुमिनीन स.अ. फरमावे छे "हसनत हमारी मोहब्बत छे, सैयेअत हमारी दुश्मनी छे"

۲۰ بِهِمْ وَبَنُوَابِهِمْ كُلُّ دَاعٍ
يَقُومُ مَقَامَهُمْ وَيُنُوبُ

इमामो के साथ उनके नायब, दोआत का वसीला लेता हूँ,
हर दाई इमाम के मकाम में काइम होते है, नियाबत करते है,

अे अधभ्त ना साथे अेना नाईयो अेना दोआत नो वसीलो वउ छुं.
हर दाई धमाम ना मकाम मां कायम थाय छे, नियाबत करे छे.

۲۱ بَوَارِثِهِمْ قُطْبِ الدِّينِ مَنْ
لِشَانَاتِهِ حَارَ فِيهَا اللَّيْبُ

दोआत के वारिस सैयदना कुल्बुद्दीन का वसीला लेता हूँ,
आप की शानात में अक्लमंद को हैरत है,

એ દોઆતો ના વારસ મૌલાના કુલ્બુદ્દીન નો વસીલો લઉ છું,
એની શાનાત માં અક્લમંદ ને હેરત છે.

۲۲ وَقُطْبُ الْهُدَى مِثْلَ سَيْفِ الْهُدَى
وَبُرْهَانَ دِينِ آمِينَ نَقِيبُ

मौलाना खुज्रैमा कुल्बुद्दीन – मौलाना ताहेर सैफुद्दीन और मौलाना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की
तरह – अमीन है, सरदार है,

મૌલાના ખુજ્રૈમા કુલ્બુદ્દીન - મૌલાના તાહેર સૈફુદ્દીન અને મૌલાના મોહમ્મદ
બુરહાનુદ્દીન ની મિસલ - અમીન છે, સરદાર છે.

۲۳ وَسِلْسِلَةٌ النَّصِّ
لِأَنْوَارِ نَصِّ مَحَالٍ غُرُوبِ

और नस्स का सिलसिला जारी है,
नस्स का नूर हरगिज़ न गुरूब होनेवाला है,

અને નસ્સ નો સિલસિલો જારી છે.
નસ્સ ના અનવાર હરગિઝ ગુરૂબ નહિ થાય

۲۴ اَنَا نَجَاهُ طَاهِرٌ قَدْ وَرِثْتُ اللَّهَ -
-عَاةَ بِنَصِّ فَايِي نَجِيبٌ

कुल्बुद्दीन मौला का मैं फरज़न्द ताहेर हूँ,
नस्स से मैं दोआत का वारिस हूँ, मैं नजीब हूँ,

कुल्बुद्दीन मौला नो में इरज़न्द ताहेर छुं,
नस्स सी में दोआतो नो वारस छुं, में नज्ब छुं.

۲۵ وَمَمْلُوكُ آلِ النَّبِيِّ السُّرِيِّ
حَيَاتِي بِذِكْرِهِمْ قَدْ تَطِيبُ

मैं नबी मोहम्मद की आल का ममलुक हूँ,
उनकी ज़िक्र से मेरी ज़िन्दगी में इत्मीनान है,

में नबी मोहम्मद नी आल नो ममलुक छुं,
अे सगवा नी ज़िक्र सी मारी ज़िन्दगी मां राहत छे.

۲۶ لِأَخْدِمَهُمْ وَأَلْفِدِيَهُمْ
أُرِيقُ دَمِي وَلِلْحَمِي أُوذِيْبُ

आले मोहम्मद की खिदमत करने, उन पर फ़िदा होने,
मैं अपना खून बहाऊँ, अपनी ज़ात, गोश पोश न्योछावर करता रहूँ,
आले मोहम्मद नी खिदमत करवाने, आले मोहम्मद पर फ़िदा थावाने,
में मारुं पून बहावुं छुं, मारी ज़ात मारा गोश पोश ने गावुं छुं.

٢٧ أَقُولُ كَمَا قَالَ سَيْفُ الْهُدَى ن عَبْدُ عَلِيٍّ
"لَعْمَرِي أَمْرِي عَجِيبٌ عَجِيبٌ"

मौलाना अब्देअली सैफुद्दीन ने जैसे फरमाया, मैं कहता हूँ,
"मेरे जान की कसम, मेरा अमर अजीब है, तअज्जुब कराता है",

જેમ મૌલાના અબ્દેઅલી સૈફુદ્દીન એ ફરમાવ્યું એમ મેં કહું છું,
"મારી જાન ના કસમ, મારો અમર અજીબ છે, તઅજ્જુબ કરાવે છે."

٢٨ بِتَأْيِيدِ مَوْلَى الْوَرَى طَيِّبِ الْعَصِ
رِ مَا ضِغْتُ ذَرْعاً وَرَأْيِي مُصِيبٌ

मेरे मौला इमाम उज़्र ज़मान की ताईद से,
मेरा हाथ तंग नहीं, मेरी राय सही राय है,

મારા મૌલા ઇમામ ઝમાન તેયેબુલ અસર ની તાઈદ સી
મારો હાથ તંગ નથી, મારી રાયે સહી રાયે છે.

٢٩ أَجَاهِدُ لِلْحَقِّ دَابًّا بِلَا
تَوَانٍ وَمَا أَنْصَبْتَنِي الْحُرُوبُ

हमेंशा हक्क के खातिर मेरी जेहाद है, कोई सुस्ती बगैर,
संघर्ष ने मुझे थकाया नहीं है,

હમેશા હક્ક ના ખાતિર મારી જિહાદ છે, કોઈ સુસ્તી વગર,
લડાઈ એ મને થકાવી નથી દીધો.

۳۰. وَآئِي عَلَى هَمَّةٍ دَائِمًا
وَمَا مَسَّنِي طَوْلَ دَهْرِي لُغُوبٌ

मैं हमेशा हिम्मत पर हूँ,
ज़िन्दगी में हरगिज़ मुझे ज़ौफ़ या थकान नहीं,

में हमेशा हिम्मत पर हूँ,
ज़िन्दगी में हरगिज़ मुझे कोई ज़ौफ़ या थकान नहीं.

۳۱. أَنَادِي عَلِيًّا فَإِنَّ أَسْمَهُ
بِهِ هَانَ خَطْبٌ وَذَلَّتْ صُعُوبٌ

मौला अली को हमेशा निदा करता हूँ,
इस नाम से मेहनत हलकी होती है, मुश्किलें आसान होती है,

मौला अली ने हमेशा निदा करुं हूँ.
ये नाम सी मेहनत हलकी थाय छे, मुश्किलो आसान थाय छे.

۳۲. إِلَهِي أَنْصُرْنِي فَإِنَّكَ إِنِ
نَصَرْتْ فَفَتَحْ مُبِينٌ قَرِيبٌ

ऐ परवरदिगार मुझे यारी दे, नसरे अज़ीज़ से ख़ास कर,
तेरी मदद से फ़तहे मुबीन करीब है,

ये परवरदिगार तुं मने यारी दे, नसरे अज़ीज़ सी ख़ास कर,
तुं नसरे अज़ीज़ आपसे तो जरूर इतहे मुबीन करीब छे.

۳۳ إِلَهِي أَجْعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ
بِحُودِكَ بَيْتِي مَلِيءٌ رَحِيْبٌ

ऐ परवरदिगार मुझे शुक्र करनेवालों में शुमार कर,
तेरे जूद और सखावत से मेरा घर भरा पूरा है,

એ પરવરદિગાર તું મને શુકર કરનારાઓ થકી કર
તારા જૂદ અને સખાવત સી મારું ઘર હરુ ભરુ છે.

۳۴ إِلَهِي أَجْعَلْنِي مِنَ الْحَامِدِينَ
بِيْمْنِكَ زَرْعِي نَضِيْرٌ خَصِيْبٌ

ऐ परवरदिगार मुझे हम्द करनेवालों में शुमार कर,
तेरी बरकत से मेरी खेती तरोताजा है,

એ પરવરદિગાર તું મને હમ્દ કરનારાઓ થકી કર.
તારી બરકત સી મારી ખેતી તરો તાઝા છે.

۳۵ بِفَضْلِكَ قَوْمِي أَنْصَارُ حَقِّي
وَأَوْلَادِي الْغُرُّ كُلُّ أَدِيْبٍ

तेरे फज़ल से मेरी कौम हक्क की यारीदैन (अन्सार) है,
मेरे रोशन फ़र्ज़न्द हरएक नेक अख्तर है,

તારા ફઝલ અને કરમ સી મારી કૌમ હક્ક ના યારી દેન (અન્સાર) છે.
મારા રોશન ફરઝંદો હર એક નેક અખ્તર છે.

۳۶ وَمَنْبَعٌ عِلْمِي مَاءٌ طَهُورٌ
وَشُرْبُ الْمُخَالِفِ مَاءٌ مَشُوبٌ

मेरे इल्म के चष्मे का पानी ऐसा है जो पाक करे,
मेरे मुखालिफ दुश्मन का पानी मैल से भरा है,

મારા ઇલ્મ નો ચશ્મો (કુવારો) એવું પાણી છે કે જે પાક કરે.
અને મુખાલિફ દુશ્મન નું પાણી મેલું છે.

۳۷ يُضِلُّ الْعِبَادَ بِأَعْوَابِهِ
وَيَزِدَادُ فِي النَّاسِ شَكًّا مُرِيبًا

તેરે ઇબાદ કો છલ ઓર મકર સે ગુમરાહ કરતા હૈ,
જિસકે સબબ લોગો મેં શક શોબોહાત જ્યાદા હોતે હૈ,

એના કેદ અને કાવતરા સી તારા ઇબાદ ને ગુમરાહ કરે છે.
જેના સબબ લોગો ના દરમિયાન શક શોબોહાત જિયાદા થાય છે.

۳۸ فَأَهْلِكُهُ عَنْ كَثْبٍ إِذْ لَهُ
مَعَ الْخُسْرِ بَعْدَ الْمَمَاتِ لَهَيْبٌ

એ પરવરદિગાર દુશ્મન કો જલ્દી હલાક કર,
મૌત કે બાદ ઉસકે કિએ ઘોટ હૈ, ઝુલસતી આગ હૈ,

એ પરવરદિગાર તું એને શિતાબી હલાક કર.
મૌત પછી એના વાસ્તે ખોટ છે, સળગતી આગ છે.

۳۹ وَأَشْرِكُ بَنِي دَعْوَتِي فِي دُعَائِي
لَهُمْ يَا إِلَهِي إِلَيْكَ أَتُوبُ

ऐ परवरदिगार मेरी दावत के फ़रज़न्दो को मेरी दोआ में भागीदार कर, उन के लिए
मैं तेरे पास इस्तिग़फ़ार करता हूँ,

એ પરવરદિગાર, મારી દાવત ના ફરજંદો ને મારી દોઆ માં ભાગીદાર કરજે, એ
સગલા વાસ્તે મેં તારા નઝદીક ઇસ્તિગ્ફાર કરું છું.

۴۰ إِلَهِي فَأَغْفِرْ لَهُمْ أَعْطِهِمْ
مُنَاهُمْ كَذَا أَحْفَظُهُمْ يَا رَقِيبُ

अल्लाह, उन के गुनाह तू माफ़ कर, उम्मीदें अता फरमा,
ऐ रकीब, ऐ हिफाजत करनेवाले, उनकी हिफाज़त करना,

એ પરવરદિગાર, સગલા ના ગુનાહો તું માફ કરી દેજે, ઉમીદો આપી દેજે.
એ રકીબ, એ હિફાઝત કરનાર, એ સગલા ની તું હિફાઝત કરજે.

۴۱ وَوَفَّقْ لِمَنْ كَانَ مِنْ قَوْمِنَا
لِدَاعِيكَ فَخْرِ الْهُدَى يَسْتَجِيبُ

जो हमारी कौम में, हमारे साथ थे, उन्हें तौफ़ीक अता फरमा,
वे तेरे दाईं ताहेर फखरुद्दीन को जवाब दे, मिसाक दे,

જે કોઈ હમારા કૌમ માં સી હતા, હમારા સાથે હતા, એને તૌફીક આપજે
તારા દાઈ તાહેર ફખરુદ્દીન ને એ જવાબ દઈ દે, મીસાક આપે.

۴۲ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى آلِ طَهْ
إِلَهِي إِلَى مَا لِرِيحٍ هُبُوبٌ

ऐ अल्लाह, ताहा नबी की आल पर सलवात और सलाम पढ़ना, जब तक बारिश
बरसता रहे, हवा बहती रहे.

એ પરવરદિગાર, તાહા નબી ની આલ પર સલવાત અને સલામ પઢજે
જહાં લગ બારિશ વરસા કરે, હવા વહેતી રહે.



